

सफाईकर्मी हड़ताल पर

By : Editor Published On : 25 Dec, 2020 09:00 AM IST



शहर के बोडकदेव स्थित महानगर पालिका की क्षेत्रीय ऑफिस में एक सफाईकर्मी ने बुधवार को जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इस घटना को लेकर समूचे अहमदाबाद के सफाईकर्मी आज हड़ताल पर उतर गए। सफाईकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पेशकश करने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा उचित जवाब नहीं दिए जाने से एक सफाईकर्मी ने मनपा के क्षेत्रीय कार्यालय में जहरीली दवाई पीकर अपनी जान देने का प्रयास किया था।

इस घटना से गुस्साए कर्मचारी बोडकदेव के क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए और सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग के निदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों की भीड़ को देखते हुए दो पीआई समेत पुलिस काफिला घटनास्थल पर पहुंच गया।

सफाईकर्मीयों के हड़ताल पर उतरने से आज अहमदाबाद में सफाई काम नहीं हुआ। कर्मचारियों की मांग है कि अन्य जोन में कर्मचारियों को वारिसदार का अधिकार मिलता है, वह पश्चिम जोन के कर्मचारियों को नहीं मिलता।

वर्षों से सफाईकर्मीयों के आवास की समस्या का आज निपटारा नहीं किया गया। गौरतलब है कि अहमदाबाद के थलतेज वार्ड में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी बुधवार को अपनी मांग को लेकर पेशकश करने गया था। लेकिन अधिकारियों द्वारा उचित जवाब नहीं दिए जाने पर सफाईकर्मी ने जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे सोला सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया है।PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/सफाईकर्मी-हड़ताल-पर/>